

WORLDWIDE ALUMINIUM LIMITED

(Formerly known as Worldwide Leathor Exports Ltd.)

Reg. Office: 602, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi-1 10001

Email Id: legalteam.worldwide@gmail.com Ph. No.: +91-11-49446667 /49446668

CIN: L70109DL1990PLC338798 Website: www.wwal.in

=====

To,

May 30, 2024

The Secretary,

BSE Limited 25th Floor,

P.J. Towers, Dalal Street,

Mumbai - 400001

Ref: Scrip Code: 526525 Security ID: WWALUM

Sub: Submission of copies of Newspaper Publishing Audited Standalone Financial Results for the Quarter (Q4) Ended March 31, 2024.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 and Regulation 47(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith the extract of Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter ended March 30, 2024, as published in the Newspaper "Business Standard" on May 30, 2024.

Thanking you,

Yours faithfully

For Worldwide Aluminium Limited

CC To:

**The Calcutta Stock Exchange Ltd
7, Lyons Range Kolkata, Dalhousie,
Kolkata, West Bengal-700001**

Abhishek Jain

Director

DIN: 02801441

GREENPLY INDUSTRIES LIMITED
 CIN: L20211WB1990PLC268743
 Registered Office: "Madgu Lounge", 23 Chetla Central Road,
 6th Floor, Kolkata - 700 027
 Phone: (033) 3051-5000
 Email: investors@greenply.com, Website: www.greenply.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that pursuant to Section 108 and Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act, 2013") read with the rules framed thereunder ("Rules"), Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Secretarial Standards for General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 03/2022 dated May 5, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated 25.09.2023 (hereinafter collectively referred to as "Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and other applicable laws and regulations, (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), Regulation 44 of the Listing Regulations, and other applicable laws and regulations, if any, the approval of the Members of Greenply Industries Limited ("Company") being sought through Postal Ballot by voting through electronic means ("remote e-voting") only, for special business as set out in the Postal Ballot Notice dated May 21, 2024 together with the Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, relating thereto.

Members are hereby informed that the Company has on May 29, 2024, completed the dispatch of Postal Ballot Notice containing the proposed resolution and explanatory statement thereto, only through electronic mode to all the shareholders of the Company, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on the "cut-off date" i.e., May 24, 2024 and whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depositories, for approval of corporate guarantee issued by the Company in favour of Indust Bank Limited in connection with loan taken by, Greenply Samet Private Limited, a joint venture company, for an amount of Rs. 55 Crores (Rupees Fifty-Five Crores).

The communication of the assent or dissent of the Members on the resolution would take place through the Remote e-voting system only. In this regard, the Company has engaged the service of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for providing the Remote e-voting facility to the shareholders.

Members may note that this Postal Ballot Notice will be available on the Company's website www.greenply.com under investors section and on the websites of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited, www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited, www.nseindia.com and on the website of CDSL, the agency engaged by the Company for providing the facility of Remote e-voting to the Members of the Company at www.evotingindia.com

The voting rights of the Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the company as on the "Cut-off date" i.e., May 24, 2024. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date will be entitled to cast their votes by Remote e-voting. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only. The Remote e-voting period begins on **May 30, 2024 at 10:00 a.m. and ends on June 28, 2024 at 5:00 p.m.** (Voting will be available on the website of the Company and on the website of CDSL and accordingly the voting shall not be allowed. Once the vote on the resolution is cast by the Members, he/she shall not be allowed to change it subsequently. Those members whose e-mail address is not registered with the Company/Depositories, may register the same by completing the process for registration of e-mail address as under:

Physical Holding: For the Shareholders holding shares in physical mode, who have not registered/updated their e-mail addresses and mobile numbers with the Company are requested to furnish their email addresses and mobile numbers to the Company's Registrars and Share Transfer Agent, M/s. S. K. Infotronics Pvt. Ltd. of D/42, Katju Nagar Colony, Ground Floor, Near South City Mall, PO & PS - Jadavpur, Kolkata, West Bengal-700032, email: skcdilip@gmail.com; Telephone: +91-33-2412-0027/0029; Fax: +91-33-2412-0027

Demat Holding: By contacting Depository Participant ("DP") and registering e-mail address and mobile number in demat account, as per the process advised by the DP.

For detailed instructions pertaining to remote e-voting, members may please refer to the section "Notes" in the Postal Ballot Notice. For any query connected with the Resolution proposed to be passed through Postal Ballot by way of e-voting, Members may contact Mr. Kaushal Kumar Agarwal, Company Secretary & Vice President-Legal at the Registered Office of the Company at "Madgu Lounge", 23 Chetla Central Road, 6th Floor, Kolkata - 700 027, Phone: (033) 3051 5000; Email: kaushal.agarwal@greenply.com. In case of any query/preference or require any assistance with respect to e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and E-voting User Manual for Members available under the Help/Downloads section of CDSL's e-voting website or contact at Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatali Mill Compounds, N N Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cslindia.com or call on 1800 225 55 33.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Dilip Kumar Sarawagi, [bearing COP No.: 3090], Practicing Company Secretary, Proprietor of M/s. DKS & Co. [bearing Unique Code: S1990WB07300] of 173, M. G. Road, 1st Floor, Kolkata - 700 007 as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The results of the Postal Ballot will be announced on Saturday, June 29, 2024, i.e., within 2 (two) working days of the conclusion of the remote e-voting. The result of the postal ballot along with the Scrutinizer report would be intimated to BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") where the equity shares of the Company are listed and would also be placed on the website of the Company i.e. www.greenply.com and also on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL), agency being appointed for the purpose of providing remote e-voting facility to the shareholders at www.evotingindia.com.

Further, the results shall be displayed on the Notice Board of the Company at its Registered Office and be published in the newspapers, Business Standard, all editions (English Language) and Aajkaal (Bengali Language) on Monday, the 1st July, 2024.

For Greenply Industries Limited
 Sd/-
 Kaushal Kumar Agarwal
 Company Secretary & Vice President-Legal
 Place: Kolkata
 Date: 29.05.2024

VINAYAK VANIJYA LIMITED

Registered Office: Flat No. 28, 8th Floor, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi-110019
 CIN: L22102DL1985PLC202109, Website: www.vinayakvanijya.com
 Phone: 9079738420, Email: investor@vinayakvanijya.com

Extract of the Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year Ended on 31st Mar, 2024 (Regulation 41(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
Total Income from operations	8.04	5.50	2.32	19.85
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5.84	2.33	0.33	10.46
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax/after Exceptional and/or Extraordinary items)	(30.33)	5.15	(1.32)	(31.16)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(21.92)	5.15	(0.28)	(22.75)
Equity Share Capital	99.60	99.60	99.60	99.60
Reserves (including Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year				79.90
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations:-				
a. Basic	(2.20)	0.52	(0.03)	(2.28)
b. Diluted	(2.20)	0.52	(0.03)	(2.28)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results is available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on the website of the Company at www.vinayakvanijya.com

For Vinayak Vanijya Limited
 Sd/-
 (Sunayana) Puri
 (Director & Chairperson)
 DIN: 05136782

Date: 29.05.2024
 Place: Delhi

Notice under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The Act)

Sr. No.	Name of Borrower(s) (A)	Particulars of Mortgaged property / properties (B)	Date Of CPA (C)	Outstanding amount (Rupees) (D)
1.	LOAN ACCOUNT NO. HHLN000298711 1. MARKANDEY KUMAR 2. SANGEETA	FLAT NO. 803, 6TH FLOOR, TOWER - VA, JANARA PANORAMA, PLOT NO. GH - 04, SECTOR - 22A, YEIDA, GHAZIABAD - 201301, UTTAR PRADESH	09.04.2024	Rs. 13,87,810.48/- (Rupees Thirteen Lakh Eighty Seven Thousand Eight Hundred Ten and Paise Fourty Nine Only) as on 10.05.2024
2.	LOAN ACCOUNT NO. HHLN000346359 1. RAJEEV KUMAR 2. SANJEEV KUMAR	FLAT NO. FF - 1 (L. I. G), FIRST FLOOR, (RIGHT HAND SIDE), PLOT NO. B - 111, BLOCK - B, SHIVA APARTMENT, SLV VED VIHAR, GHAZIABAD - 201102, UTTAR PRADESH	09.04.2024	Rs. 11,42,029.31/- (Rupees Eleven Lakh Forty Two Thousand Twenty Nine and Paise Thirty One Only) as on 15.05.2024
3.	LOAN ACCOUNT NO. HHLN000306953 1. SHIVA S TOMAR 2. BRUNIV SINGH TOMAR	UNIT NO. KRHO15 - 2303, KRESNANT HOMES, JAYPEE GREENS, SEC - 129 & 134, NOIDA, UP NOIDA - 201304 UTTAR PRADESH	09.03.2024	Rs. 22,55,841.05/- (Rupees Twenty Two Lakh Fifty Five Thousand Six Hundred Forty One and Paise Five Only) as on 08.05.2024
4.	LOAN ACCOUNT NO. HHLN000153709 1. VIJAY KESHRI 2. SANGEETA KESHRI 3. KASHI NATH KESHRI	FLAT NO. 405, 4TH FLOOR, TOWER - D, EKADANT FLO, PLOT NO. HRA - 102B, SURAJPUR SITE C, GREATER NOIDA, NOIDA - 201301, UTTAR PRADESH	09.04.2024	Rs. 9,01,918.14/- (Rupees Nine Lakh One Thousand Nine Hundred Eighteen and Paise Fourteen Only) as on 13.05.2024
5.	LOAN ACCOUNT NO. HHLN00039646 1. PURUSHOTTAM KUMAR 2. SUNITA ALIAS SUNITA SHARMA 3. VARUN KUMAR (GUARANTOR)	UNIT NO. F - 1005, 10TH FLOOR, TOWER - F, STAR RAMESHWAR, NH - 58, RAJ NAGAR EXTENSION, GHAZIABAD - 201017, UTTAR PRADESH	09.04.2024	Rs. 6,90,460.56/- (Rupees Six Lakh Ninety Thousand Four Hundred Sixty and Paise Fifty Six Only) as on 15.05.2024
6.	LOAN ACCOUNT NO. HHLN00037494 1. GAURAVA SRIVASTAVA 2. PADMA SRIVASTAVA 3. BHAVANI SHANKAR SRIVASTAVA	ENTIRE GROUND FLOOR, (WITHOUT ROOF RIGHTS), PLOT NO. 322A, SECTOR - 3, VASUNDHARA, GHAZIABAD - 201001, UTTAR PRADESH	09.04.2024	Rs. 6,25,167.78/- (Rupees Six Lakh Twenty Five Thousand One Hundred Sixty Seven and Paise Seventy Eight Only) as on 13.05.2024
7.	LOAN ACCOUNT NO. HHLN000172557 1. ASHUTOSH SHUKLA 2. VIJAY LAXMI SHUKLA 3. BALAJI GEOTRAK TECHNOZIARD PVT. LTD.	APARTMENT NO. 2506, 25TH FLOOR, BLOCK A, MIGNUS KIAN, SECTOR - 14, PLOT NO. 14/CMM-01, VASUNDHARA, GHAZIABAD - 201007, UTTAR PRADESH	04.04.2024	Rs. 11,83,926.98/- (Rupees Eleven Lakh Eighty Three Thousand Nine Hundred Twenty Six and Paise Ninety Eight Only) as on 13.05.2024
8.	LOAN ACCOUNT NO. HHLN000172554 1. ASHUTOSH SHUKLA 2. VIJAY LAXMI SHUKLA 3. BALAJI GEOTRAK TECHNOZIARD PVT. LTD.	APARTMENT NO. 2506, 25TH FLOOR, BLOCK A, MIGNUS KIAN, SECTOR - 14, PLOT NO. 14/CMM-01, VASUNDHARA, GHAZIABAD - 201007, UTTAR PRADESH	04.04.2024	Rs. 10,98,526.19/- (Rupees Ten Lakh Fifty Eight Thousand Five Hundred Twenty Eight and Paise Fifteen Only) as on 13.05.2024

That the above named borrower(s) have failed to maintain the financial discipline towards their loan account (s) and as per books of accounts maintained in the ordinary course of business of the Company, Column D indicates the outstanding amount. Due to persistent default in repayment of the Loan amount on the part of the Borrower(s) the above said loan account has been classified by the Company as Non Performing Asset (as on date in Column C) within the guidelines relating to assets classification prescribed by Regulating Authority. Consequently, notices under Sec. 13(2) of the Act were also issued to each of the borrower. In view of the above, the Company hereby calls upon the above named Borrower(s) to discharge in full its/their liabilities towards the Company by making the payment of the entire outstanding dues indicated in Column D above including up to date interest, costs, and charges within 80 days from the date of publication of this notice, failing which, the Company shall be entitled to take possession of the Mortgaged Property mentioned in Column B above and shall also take such other actions as are available to the Company in law.

Please note that in terms of provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFESI Act: "A borrower can tender the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Secured Creditor within a period specified in the notice of tendering but not to be entitled to redeem the property".

In terms of provision of sub-section (13) of Section 13 of the SARFESI Act: "You are hereby prohibited from transferring, either by gift, sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business of your business) any of the secured assets referred to in the notice, without prior written consent of the Secured Creditor."

For Indiabulls Housing Finance Ltd.
 Sd/-
 Anand Kumar
 Authorized Officer
 Place : GREATER NOIDA / GHAZIABAD / NOIDA
 Date: 29.05.2024

SPECIMEN OF ADVERTISEMENT TO BE PUBLISHED

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN
 Public Notice

This is to inform the General Public that following share certificate of HCL TECHNOLOGIES LTD having its Registered Office at 806, Sidharth B, Nehru Place, New Delhi, 110019 registered in the name of the following Shareholders have been lost by them:

Sr. No.	Name of the Shareholder/s	Folio No.	Certificate No/s	Distinctive No/s	No. of Shares
1.	SHIN SHAH CITIBANK N A	0044754	400504 287282 294441	142836846-142836860 325573219-325573318 703094055-703094254	100 100 100

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificates.
 Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such claim with the Company or its Registrar and Transfer Agents Link Intime India Private Limited 247 Park, C-01, 1st Floor, L. B. S. Marg, Vikroli (W) Mumbai - 400083 TEL: 022 49186270 within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s.
 Name of Legal Claimant
 Date: 30.05.2024
 NINA SHAH

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property/ies)
 (As per APPENDIX IV read with rule 80) THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002
 Whereas, the undersigned being the authorized officer of the Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 80 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 02.02.2024 calling upon the Mr. Laxu Ram Sutar S/o Sri Dhull Ram Sutar to repay the amount due on the basis of Rs. 9,79,716.07 (Rupees Nine Lakh Seven Thousand Seven Hundred Sixty Seven and Paise Only) + interest upto 01.02.2024 + other charges within 90 days from the date of receipt of this notice.

The borrower has failed to repay the amount due on the basis of Rs. 9,79,716.07 (Rupees Nine Lakh Seven Thousand Seven Hundred Sixty Seven and Paise Only) + interest upto 01.02.2024 + other charges within 90 days from the date of receipt of this notice. The borrower is hereby called upon to repay the amount due on the basis of Rs. 9,79,716.07 (Rupees Nine Lakh Seven Thousand Seven Hundred Sixty Seven and Paise Only) + interest upto 01.02.2024 + other charges (as on 24.05.2024) and interest thereon. The borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property
 All part and parcel of property situated at Flat no. B-706, Seventh Floor, "Aarhat Plaza", Tahsil Nathdwara, District Rajasmandi, Rajasthan in the name of Mr. Laxu Ram Sutar s/o Sri Dhull Ram Sutar amounting 450 sq. ft., Bounded by: East- Open Lanes, West- Flat no. 705, North- Common Passage, South- Open Space
 Date: 24.05.2024
 Place: Nathdwara
 Authorized Officer, Bank of Baroda

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
 ALLAHABAD BENCH, PRAYAGRAJ
 (ORIGINAL JURISDICTION)
 COMPANY PETITION NO. GP/2024
 CONNECTED WITH
 COMPANY APPLICATION NO. C.A. (CA) 01/14 OF 2024
 IN THE MATTER OF: THE PETITIONERS ABOVE NAMED ON 07.05.2024 and the said PETITIONERS ABOVE NAMED ON 07.05.2024 AND SECTION 203 & 232 AND IN THE MATTER OF SCHEME OF ARRANGEMENT AND IN THE MATTER OF AMBA PANEL INDIA PVT LTD. PETITIONER NO. 1; DEMERGED COMPANY (A Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered offices at Kharsa No. 315, Village Updega, Hapur-245 101, Uttar Pradesh) AND AMBA LAMINATE PVT LTD. PETITIONER NO. 2; RESULTING COMPANY (A Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013 and having its registered offices at Kharsa No. 402, Village Batapur, Hapur-245 101, Uttar Pradesh)

Notice of Hearing of Petition
 A joint Petition under sections 230 & 232 of the Companies Act, 2013, read with Sections 52 and 68 of the Companies Act, 2013, the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016, and other applicable provisions, if any, for obtaining sanction to the Scheme of Arrangement of Amba Panel India Pvt Ltd and Amba Laminate Pvt Ltd was presented by the Petitioners above named on 07.05.2024 and the said Petition is fixed for hearing on 25th July, 2024 at 10:30 AM before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, 67, Panna Lal Road, Prayagraj-211 002, Uttar Pradesh.

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send his intention, signed by him or his Advocate, with his name and address to the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, 67, Panna Lal Road, Prayagraj-211 002, Uttar Pradesh and to the Petitioners' Advocate, so as to reach to the Bench and the Petitioners' Advocate not later than 2 days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of the affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Karrikeya Goel, Advocate
 For Rajes Poolet & Associates
 Counsel for the Petitioners
 75, Poolet & Associates
 75, Poolet & Associates
 75, Poolet & Associates
 Date: 29.05.2024
 Place: New Delhi
 Delhi Meerut Expressway/NH-9, Delhi 110011
 Mobile: 9312409354, e-mail: rajes381@gmail.com, Website: www.rgsl.in

WORLDWIDE ALUMINIUM LIMITED
 (Formerly known as Worldwide Leather Exports Limited)
 Reg. Office: 602, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi-110001
 Email Id: legalteam.worldwide@worldwideleather.com, Tel: +91-11-4346677/4346668
 CIN: L70109DL1990PLC338798, Website: www.wwal.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST MARCH, 2024

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31st March 2024 (Audited)	31st December 2023 (Unaudited)	31st March 2023 (Audited)	31st March 2024 (Audited)
Total Income (From operations & Other Income)	701.76	-	13.39	701.76
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	38.13	(8.16)	(5.52)	0.53
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	38.13	(8.16)	(5.52)	0.53
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	37.85	(8.16)	(5.77)	0.25
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	37.85	(8.16)	(5.77)	0.25
Equity Share Capital	328.63	328.63	328.63	328.63
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	287.10	249.47	286.92	287.10
Earnings Per Share of Rs. 10/- each Basic & Diluted	1.15	(0.25)	(0.18)	0.01

Note: 1. The above is an extract of the detailed format Quarter Ended 31.03.24 audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter-ended Financial Results are available on the website of the Stock Exchange, i.e. www.bseindia.com and on the website of the Company, i.e. www.wwal.in
 2. The above financial results are in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) as prescribed u/s 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time.
 For Worldwide Aluminium Limited
 Sd/-
 Abhishek Jain
 (Joint Managing Director)
 Date: 28.05.2024
 Place : New Delhi
 DIN: 02001441

TECHNVISION VENTURES LIMITED
 1486 (12-13-522) (Rupees) (Share) of Rs. 50, 017
 CIN: L15900TG1980PLC054066, Fax: 040-27173240, E-mail: info@technvision.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2024
 (Rupees In Lakhs except per share data)

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended 31st Mar 2024 (Audited)	Corresponding 3 months Ended in previous year 31st Mar 2023 (Unaudited)	Previous Quarter Ended 31st Dec 2023 (Unaudited)	Year Ended 31st Mar 2024 (Audited)	Quarter Ended 31st Mar 2024 (Audited)	Corresponding 3 months Ended in previous year 31st Mar 2023 (Unaudited)	Previous Quarter Ended 31st Dec 2023 (Unaudited)	Year Ended 31st Mar 2024 (Audited)
1.	Total Income from Operations	454.35	338.72	378.83	1577.55	1914.01	5223.87	4177.96	9978.32
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	30.72	28.92	11.43	78.48	62.19	905.85	318.21	1425.79
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	30.72	28.92	11.43	78.48	62.19	905.85	318.21	1425.79
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	23.04	15.95	7.30	57.04	5.69	886.76	300.38	1353.29
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	23.04	15.95	7.30	57.04	5.69	886.76	300.38	1353.29
6.	Equity Share Capital	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	967.28	916.53	945.25	967.28	889.34	59.87	(1316.53)	59.87
8.	Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations) (Face Value of Rs. 10 each) Basic: Diluted:	0.37 0.37	0.25 0.25	0.12 0.12	0.91 0.91	0.09 0.09	14.13 14.13	4.79 4.79	14.25 14.25

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange viz. www.bseindia.com and the web site of the Company www.technvision.com.
 2. The above results were reviewed by the Audit Committee and taken on record at the Meeting of the Board of Directors held on 29.05.2024.
 3. There are no complaints received by investors during the year.
 4. The Consolidated results include the figures of the subsidiaries viz. SEIElement Homes Private Limited, SITI Corporation Inc.-USA, Accel Force Pte Ltd-Singapore and its subsidiary companies viz. Solix Technologies Inc., USA and its subsidiary Solix Softex Pvt Ltd and Emagia Corp., USA.
 5. The exchange conversion rate considered for the Subsidiary Company's figures are @ US \$ 1 = INR83.38 (Last quarter as on 31.03.2023 - 1 USD = INR 82.22).
 6. Current year / period figures have been regrouped / reclassified to conform current period classification.
 7. Minority Interest has been appropriately reflected in the above results and EPS is calculated on Net Profit after deducting Minority Interest.
 By and on behalf of the Board for Technvision Ventures Limited
 Sd/-
 Geetanjali Toopran
 Whole Time Director & CFO
 DIN: 01498741
 Date: 29.05.24
 Place: Secunderabad

